

फॉर्म - 3/ FORM - 3

**Medical Certificate for Gazetted Officers
Recommended Leave or Extension of Leave or Commutation of Leave**

**राजपत्रित अधिकारियों के लिए चिकित्सा प्रमाण पत्र
अनुशंसित छुट्टी या छुट्टी का विस्तार या छुट्टी का रूपांतरण**

Signature of Government Servant:

I after careful personal examination of the case, hereby certify that Dr./Shri/Smt./Kumari whose signature is given above is suffering from and I consider that a period of absence from duty of with effect from is absolutely necessary for the restoration of his/her health.

Date :

**Authorised Medical Attendant/ Medical Officer/
Hospital / Dispensary**

.....✂.....✂.....✂.....✂.....

फॉर्म - 5 / FORM - 5

**Medical Certificate of Fitness to return of duty after leave
छुट्टी के बाद इयूटी पर लौटने के लिए फिटनेस का मेडिकल प्रमाण पत्र**

Signature of Government Servant :

I/We, the members of Medical Board/
Civil Surgeon/ Staff Surgeon/ Authorised Medical Attendant/Registered Medical Practitioner
of hereby certify that
I/we have carefully examined Dr./Sri/Smt/ Kumari
..... whose signature is given above, and find
that he/she has recovered from his/her illness and is now fit to resume duties in Govt. Service.
We/ I also certify that before arriving at this decision We/ I have examined the original medical
certificate(s) and statement(s) of the case (or certified copies thereof) on which leave was
granted or extended and have taken these into consideration in arriving at our/my decision. He/
Her is fit for duty with effect from

Date :

**Members of Medical Board/ Civil Surgeon/
Staff Surgeon/ Authorised Medical Attendant/
Registered Medical Practitioner**